



Plot No. 2-B, Sector -126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Tel. : +91 120 6860000, 3090100, 3090200 Fax : +91 120 3090111, 3090211 E-mail : iglho@indiaglycols.com, Website : www.indiaglycols.com

2<sup>nd</sup> September, 2020

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Scrip Code: 500201

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Notice of 36th Annual General Meeting, Annual Report for FY 2019-20, E-voting information and Book Closure-Newspaper Advertisement.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, kindly find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement w.r.t. completion of dispatch of the Notice of 36th Annual General Meeting and Annual Report for FY 2019-20 through e-mail to the eligible shareholders of the Company, Book Closure and E-voting information in the following newspapers published on 2nd September, 2020:

- 1. Financial Express and The Indian Express in English; and
- 2. Uttar Ujala in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For India Glycols Limited

Ankur Jain

Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above

CIN: L24111UR1983PLC009097

### DEBT PAYMENT DEFAULT

# Franklin Templeton values Future firm's securities nill

FE BUREAU Mumbai, September 1

FOUR SHUTTERED schemes of Franklin Templeton MutualFundsaw their respective net asset values (NAV) fall on Mondayas Rivaaz Trade Ventures (RTVPL) — a Future group entity defaulted on its scheduled debt obligation due on August 31.

Due to the default in payment, these curities of RTVPL will be valued at zero based on Association of Mutual Funds in India (Amfi) standard hair cut metrics.

Franklin India Short Term Income Plan, Franklin India Dynamic Accrual Fund, Franklin India Income Opportunities Fund and Franklin India Credit Risk Fund have invested in various non-convertible debentures (NCDs) issued by RTVPL. Data from Value Research shows that four schemes have seen its NAV down in the range of 0.03%-6.10% on Monday.

Earlier Nufuture Digital (India) and Future Ideas Com-

Religare Health

Care Health

Insurance

Insurance is now

STANDALONE HEALTH INSUR-

ANCE company Religare Health

Insurancewillbe now rebranded

as Care Health Insurance. Accord-

ing to the company, the rebrand-

ing is aimed at further building

on opportunities to deliver the

best possible 'care' to its con-

sumers. Anuj Gulati, founding

managing director & CEO, Care

Health Insurance, said, "We wish

to reassure all employees, part-

ners and stakeholders that our

organisation remains the same.

Be it the founding management

team, our bouquet of value-for-

money products or the technol-

ogy-driven servicing capabilities,

everything is the same — except

out in the Notice convening the AGM

(https://instavote.linkintime.co.in).

respective Depository Participants.

and copy of a share certificate.

and voting to the registered e-mail address.

Members may go through the Notice for the AGM.

The Members are informed that:

disabled by LIIPL thereafter.

allowed to change it subsequently.

cast their vote again during the meeting

E-mail: coimbatore@linkintime.co.in.

18.09.2020.

the name."

-FEBUREAU

**Φ SAKTHI SUGARS LIMITED** 

CIN: L15421TZ1961PLC000396

Regd. Office: Sakthinagar - 638315, Bhavani Taluk, Erode District, Tamilnadu

Phone: 0422-4322222, 2221551, Fax: 0422-2220574, 4322488

E-mail: shares@sakthisugars.com Web: www.sakthisugars.com

Notice is hereby given that 58th Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Friday, 25th September 2020 at 2.45 P.M. through

Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance

with the provisions of the Companies Act 2013, General Circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 05.05.2020 issued by the Ministry of Corporate

Affairs (MCA) and SEBI Circular dated 12.05.2020 to transact the business set

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Annual Report

for the financial year 2019-20 together with Notice and Explanatory

Statement has been sent through electronic mode to the Members whose

e-mail id is registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents

(RTA) / Depository Participants. The Annual Report will be made available on

the Company's website (www.sakthisugars.com) and on the websites of

National Stock Exchange Ltd. (www.nseindia.com) and BSE Ltd.

(www.bseindia.com) and also on the website of Link Intime India Pvt. Ltd.

Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers

Members holding shares in demat form can register by contacting their

(i) send an email request to the Company's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd.

at coimbatore@linkintime.co.in along with signed scanned copy of the

request letter providing the name, folio number, full address, email

address and mobile number, self-attested PAN Card copy and copy of a

www.linkintime.co.in, go to investor service section and select

"e-mail / bank detail registration", fill in the details, attach signed

scanned copy of the request letter providing the name, folio number, full

address, email address and mobile number, self-attested PAN Card copy

After verification, the Company / RTA will send log in credentials for attending

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44

of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

and the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Company has provided

Electronic Voting (i.e. remote e-voting, and e-voting during the AGM) using

the system provided by Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) for Members to cast

their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. For voting instructions,

a. The business as mentioned in the Notice of 58th AGM may be transacted

The remote e-voting shall commence on Tuesday, 22.09.2020 at 9.00 A.M.

and shall end on Thursday, 24.09.2020 at 5.00 P.M. Remote e-voting will be

. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is

d. A person whose name is recorded in the register of members or in the

Those persons who have become members of the Company after 28.8.2020

may contact the Registrar & Share Transfer Agents (RTA), Link Intime India

Private Ltd at their e-mail id "coimbatore@linkintime.co.in" and furnish

Once the e-vote on a resolution is cast by the Members, they shall not be

3. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the

AGM may attend the AGM through VC / OAVM, but shall not be allowed to

. In case of queries on e-voting, Members may refer to the 'Frequently

Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at

https://instavote.linkintime.co.in or contact our RTA, Link Intime India

Pvt. Limited, Surya, 35, May Flower Avenue, Behind Senthil Nagar,

Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028. Phone No.: 0422 2314792,

Sri M.D.Selvaraj, Proprietor, M/s. MDS & Associates, Company Secretaries,

Coimbatore has been appointed as scrutinizer for conducting remote

e-voting process and e-voting during the AGM in a fair and transparent

In case of any query or issue or grievance, Members may contact

Sri. S.Baskar, Senior Vice President & Company Secretary through e-mail id

For attending the meeting through VC/OAVM, Members may go through

The result of e-voting on the resolutions shall be declared within 48 hours of

conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's

Report shall be displayed on the notice board of the Company at its

Corporate Office at 180 Race Course Road, Coimbatore as well as

at the Registered Office. It will also be posted on the Company's

website www.sakthisugars.com and the Website of LIIPL

https://instavote.linkintime.co.in and communicated to Stock Exchanges.

'shares@sakthisugars.com' or through Phone No. 0422 4322 222.

the instructions given in the Notice convening the AGM.

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting.

their e-mail id for getting the Notice and the Annual Report.

(ii) log in to the website of the Company's RTA Link Intime India Pvt. Ltd.

are requested to get the same registered as stated below:

b. Members holding shares in physical form, may

Four schemes of Franklin Templeton MF that have invested in various NCDs of RTVPL have seen their NAVs falling in the range of

0.03%-6.10%

pany had defaulted on payment obligation resulting in NCDs being valued at zero.

On August 29, Reliance Retail announced acquisition of retail& wholesale business and logistics & warehousing business of the Future Group, on a slump sale basis, for lumpsum aggregate consideration of ₹24,713 crore.

"Based on representations received from the Future Group, we understand NCDs held by Franklin Templeton MF are proposed to be repaid from proceeds of the transaction. We believe, the proposed sale announcement is a positive development for the NCDs held by schemes of Franklin Templeton MF. We are closely tracking developments around the same," said the fund

house in a note.

The proposed slump sale and the scheme of restructuring will be subject to regulatory approvals including National Company Law Tribunal (NCLT), Stock exchanges, Sebi, Competition Commission of India and approval from equity shareholders and creditors of the transferor companies and transferee companies.

The fund house also added in the note that the acquisition was being done as part of the scheme in which Future Group was amalgamating certain companies (listed as well as unlisted) carrying on the aforesaid businesses into Future Enterprises (FEL). After the amalgamation, FEL is expected to conclude the slump sale. Further, FEL is expected to raise approximately ₹2,800 crore by way of preferential allotment to Reliance Retail through a combination of equity shares and warrants. Reliance Retail will hold approximately 13.14% in FEL (post-merger).

# New post-moratorium guidelines for MFIs

PRESS TRUST OF INDIA

MICROFINANCE INSTITU-TIONS NETWORK (MFIN), an

Reserve Bank of India (RBI), moratorium on repayment of term loans in order to provide relief to borrowers impacted by the Covid-19 related disruptions. Initially, the moratorium was allowed till May 31 but was

MFIN said the detailed advi-

sory is a reiteration of points covered in Industry Code of Conduct and Code of Responsible Lending such as fair interactions with borrowers, ensuring transparency, training for employees engaging with borrowers, among several others and also covers safeguards for Covid-19.

### 躵 SHREE RENUKA SUGARS

## SHREE RENUKA SUGARS LIMITED

(A WILMAR GROUP COMPANY)

Corporate Identification Number: L01542KA1995PLC019046 Regd. Office: 2nd and 3rd Floor, Kanakashree Arcade, CTS No.10634, JNMC Road, Nehru Nagar, Belagavi - 590010, Karnataka. Tel No.: +91-831-2404000; Investors relations contact: groupcs@renukasugars.com; Website: www.renukasugars.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(INR in Million)

	Particulars	Standalone			Consolidated		
Sr. No.		3 months ended June 30, 2020 (Unaudited)	3 months ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)	3 months ended June 30, 2020 (Unaudited)	3 months ended June 30, 2019 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)
1	Total income from operations	13,462	10,399	46,474	13,540	10,866	49,400
2	Net Profit/(loss) before tax and exceptional items	(55)	(1,572)	(6,385)	(298)	(1,872)	(6,438)
3	Net profit/(loss) before tax and after exceptional items	(55)	(1,572)	(3,396)	(298)	(1,872)	(3,549)
4	Net Profit/(loss) after tax and exceptional items from continuing operations	(110)	(1,590)	(5,512)	(353)	(1,890)	(5,665
5	Net Profit/(loss) from discontinued operations after tax					(2,227)	25,163
6	Net profit/(loss) for the period/year	(110)	(1,590)	(5,512)	(353)	(4,117)	19,498
7	Total comprehensive income for the period [comprising loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(110)	(1,590)	(6,665)	(360)	(3,954)	20,117
8	Equity share capital	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917
9	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of previous accounting year			(12,488)			(21,644
10	Earnings per share (for continuing operations) (of ₹ 1/- each) (not annualised): a) Basic (INR) b) Diluted (INR)	(0.06) (0.06)	(0.83) (0.83)	(2.88) (2.88)	(0.18) (0.18)	(0.98) (0.98)	(2.96 (2.96
11	Earnings per share (for Discontinued operations) (of ₹ 1/- each) (not annualised): a) Basic (INR) b) Diluted (INR)	-	:			(0.92) (0.92)	13.9
12	Earnings per share (for continued and discontinued operations) (of ₹ 1/- each) (not annualised): a) Basic (INR) b) Diluted (INR)	•			(0.18) (0.18)	(1.90) (1.90)	10.95 10.95

### Notes:

Place : Mumbai

Date : August 31, 2020

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed for the quarter ended June 30, 2020 with the Stock exchanges under Regulation 33 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said financial results are available on the Stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.renukasugars.com).
- 2. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on

For Shree Renuka Sugars Limited

Vijendra Singh **Executive Director** DIN: 03537522

Mumbai, September 1

industry association for the microfinance industry, on Tuesdaysaid it has issued an advisory to its members on engaging with borrowersafter the RBI moratorium ended on August 31,2020.

in March, had announced a later extended till August 31.

### INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Roed, Kashipur - 244713, Distl. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535 E-mail: compliance officer@indiaglycols.com. Website: www.indiaglycols.com CIN: L24111UR1983PLC009097

> Notice of 36th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Glycols Limited ('the Company') will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice convening the 36" AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13/ April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") The Deemed venue for AGM shall be the Registered office i.e. A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Members Participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorun

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 which, Inter-alia, comprises Audited financia statements (including the consolidated financial statements) of the Company for the financial year ended 31" March, 2020, Auditor's and Board's report thereon has been sen only by email to all those Members who have registered their email addresses with the Company or their respective Depository Participant ("DP") which was completed or Monday, 31st August, 2020. The Notice of the 36st AGM and Annual Report is also available on the Company's website www.indiaglycols.com, website of Nationa Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the website of Stock Exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members, who do not receive the Notice of 36th AGM and Annual Report, may download it from the Company's website or write to the Company Secretary at compliance officer@indiaglycols.com

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 18th September, 2020 to Thursday, the 24th September, 2020 (both days inclusive)

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and applicable rules thereunde and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM in respect of businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The AGM notice, inter-alia mentions the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM and instructions for participating in the AGM along with the instructions with regard to login credentials for members holding shares in physical form or in demat form, who have not registered their e-mail addresses either with the Company/DP. The voting rights, by remote e-voting/e-voting, of the Members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e Thursday, 17th September, 2020 All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 36" AGM may be transacted through voting by electronic means; (b) the remote e-voting shall commence on Sunday, the 20th September, 2020 at 9:00 A.M ... (c) the remote e-voting shall end on Wednesday, the 23rd September, 2020 at 5:00 P.M.; (d) the cut-off date for reckoning the rights of Members for remote e-voting/e-voting is Thursday, the 17th September, 2020; (e) the remote e-voting shall not be allowed after 5:00 P.M. on Wednesday, the 23rd September, 2020; (f) E-voting shall also be made available at the 36th AGM; (g) the Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the 36th AGM; (g) person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e Thursday, 17th September, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM; (h) Persons who have acquired shares and become members of the Company after the notice has been sent electronically and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, the 17th September, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@risdl.co.in or admin@mcsregistrars.com: and (i) in case of queries. Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the 'downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatri, Manager, NSDL Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, at pallavid@nsdi.co.in, Tel No. +91 22 2499 4545 or at Toil Free No. 1800-222-990 who will also address the grievances connected with the electronic voting/attending AGM through VC/OAVM. Members may also e-mail to the Company Secretary at compliance officer@indiaglycols.com or write at the Head office at Plot No. 2-B, Sector 126, Noida 201304, Uttar Pradesh. Shareholders whose e-mail ID's are not registered with the Company/Depository Participant, may get the same registered by following the below instructions, in order to

obtain Annual Report for the Financial Year 2019-20: Physical Holding | Members holding shares in physical mode are requested to register/

update their email addresses by writing to MCS Share Transfer Agent Limited ("the RTA") at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 or email at admin@mcsregistrars.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front & back).

Demat Holding

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses by following the process mentioned above under-Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat Account

However, for registration of e-mail addresses permanently, members holding shares in physical form may follow the same procedure and those holding shares in demat mode. may contact their respective DP's

The Company has appointed Shri Ashish Saxena (C.P. No.7096) of Ashish Saxena & Co., Company Secretaries, Ghaziabad as the scrutinizer to scrutinize the Remote

e-voting and e-voting process in fair and transparent manner.

Members holding shares in physical mode are requested to inform about change of address: dividend mandate, if any, to the Company's RTA i.e. M/s MCS Share Transfer Agent Limited. F-65, 1º Floor Okhia Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 and the members holding shares in demat mode should inform their Depository Participants about such changes.

For India Glycols Limited Place : Noida, U.P.

Ankur Jain

### **AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED** CIN: L24231TN1936PLC000017

Regd. Office: No. 103 (Old No.42-45), Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004

Tel No: 044-2499 4465 Website: www.amrutanjan.com; Email id: shares@amrutanjan.com NOTICE NOTICE is hereby given that the Eighty Third (83rd) Annual General Meeting (AGM) of the members of

AMRUTANJAN HÉALTH CARE LIMITED (the Company) will be held on Wednesday, September 23, 2020 through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 13, 2020 sent to the members of the Company. In view of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its Circular dated May 5, 2020,

read with Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities

and Exchange Board of India, vide its Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of the AGM through

VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the Circulars issued by MCA and SEBI, and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM have been provided in the Notice of the Annual General Meeting In compliance with Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in accordance with the relaxation granted by the

Securities and Exchange Board of India vide Circular dated May 12, 2020 the Annual Report for the year 2019-20 containing the Notice of 83rd AGM is being sent only in electronic form, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) who have registered their email id with the Company Depositories. Further, as per the permission granted by MCA and SEBI, the entitlement for appointment of proxy has been dispensed with for AGMs to be conducted in electronic mode. Accordingly, the Attendance Slip and Proxy Form have not been annexed to the Notice. The said Annual Report is also available in the web-link https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1920.pdf and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are available for inspection electronically upto the date of the meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, September 16, 2020 with facility of electronic voting ("e-voting"). The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from **Thursday, September** 17, 2020 to Wednesday, September 23, 2020 (both days inclusive). The members may cast their votes using the electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") All the members are informed that:

- ai. All the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 13, 2020 may be transacted through electronic means by remote e-voting.
- The date of Emailing of Notice of 83rd AGM : August 31, 2020
- iii. The date and time of commencement of remote e-voting: September 20, 2020 at 09.00 Hours IST iv. The date and time of closure of remote e-voting: September 22, 2020 at 17.00 Hours IST
- v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: September 16, 2020 vi. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the emailing of Notice
- of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 16 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then such member can use the existing user ID and password for casting his/her vote.
- vii. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17.00 Hours IST on September 22, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. However, those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their votel on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- viii. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again
- ix. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Detailed procedures/instructions for remote e-voting have been provided in the Notice of the AGM
- Shareholders desiring to express their views/ ask questions during the meeting may register themselves as a speaker. Request for this may be made to shares@amrutanjan.com on or before 18th September 2020 (5.00) PM). Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views or ask questions at the e-AGM. The company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers depending upon the availability of time for conduct of the e-AGM
- xi. Website address of the Company and of the Agency, where Notice of AGM is displayed www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com
- xii. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote evoting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- xiii.If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).
- xiv. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting.:- Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013, Tel: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com
- xv. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 16, 2020 being cut-off date.

By Order of the Board of Directors of AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED M SRINIVASAN Company Secretary & Compliance Officer

financialexp

31st August 2020

Sr. Vice President and Company Secretary

For Sakthi Sugars Limited

Dated: 1st September, 2020

Company Secretary

Date: September 01 2020

Place: Chennai,

New Delhi

# I'HE ('ITY



**SIRIFORT** 

201-300 Poo

**SHADIPUR** 

IHBAS

**GOVT HOSPITALS, NURSING HOMES STILL HAVE ROOM** 

# **ICUs full at top private** hospitals as cases rise

**ASTHA SAXENA** 

NEW DELHI. SEPTEMBER 1

AS DELHI witnesses a fresh uptick in the number of daily Covid cases, ICUs in several top private hospitals are once again running full, suggesting a rise in ICU admissions. There are 79 private facilities in Delhi that have earmarked beds and ICUs for Covid patients, out of which 23, including top hospitals, are running full.

Data displayed on the Delhi government's Delhi Corona App suggests that critical-care facilities are still available largely in either government hospitals or smaller nursing homes. Top private hospitals such as Max in Saket, Indraprastha Apollo, Fortis in Vasant Kuni and BL Kapoor have ICU facilities with ventilator support at maximum capacity, with many even having a waiting list of patients.

"From the last five-six days, the influx of patients in ICUs has increased. The trend has changed over the last few days and now we have no beds in the ICU available for Covid-19 patients... we were even facing trouble in getting an ICU bed for a patient from Agra," said Dr DS Rana, chairman of board, Sir Ganga Ram Hospital.

Even at Delhi government's biggest Covid facility, Lok Nayak Hospital, the number of ICU admissions have gone up, "While we were admitting 40 patients daily a few days ago, the number



At Ganga Ram Hospital, which has the highest number of ICU beds for Covid patients. Abhinav Saha

has gone up to 60 as on Tuesday. It includes admission to wards and ICUs. Interstate mobility has resulted in an increase in daily admissions," said Dr Suresh Kumar, hospital medical director.

The highest number of ICU beds with ventilators allocated for Covid patients are at Max Hospital and Sir Ganga Ram, followed by Batra Hospital, Holy Family and Indraprastha Apollo. About 53% of non-ventilator ICU beds are occupied at the moment.

There have been changes in daily admissions but critical-care facilities with or without ventilators have been running full since the beginning. As the condition of the patient admitted at the hospital deteriorates, we immediately shift them to the ICU. Obviously with the change in restrictions, daily admissions have gone up," said Dr Rajesh Chawla. senior consultant, Respiratory and Critical Care Medicine, Apollo Hospitals.

A total of 93 hospitals — 79 private and 14 government – are providing care to Covid patients. Out of this, 49 ventilator beds in 29 facilities are vacant. Overall, there are 1,216 ICU beds with ventilator support, out of which 486 are occupied and 730 are vacant.

While top private hospitals are

running full, facilities in most government hospitals are still available. At RML, however, there are 14 ventilator beds in the ICU, of which 13 are occupied. "The drop in the number of patients was observed only in Covid wards but ICUs have mostly been running full. However, mortality rate has dropped over the last few weeks. Patients admitted to ICUs include those who are being referred from other hospitals at a critical stage, and those who are being shifted from the hospital's ward," said Dr Ranvinder Kaur, head of the

Covid-19 ICU at RML hospital.

## Set up testing centres at all ISBTs: Delhi govt to districts

**ASTHA SAXENA** 

TAKING NOTE of the Delhi High Court's suggestions to re-strategise its policy for testing Covid-19 patients, the Delhi government has directed districts to set up testing centres at inter-state bus terminals, including at Anand Vihar, Kashmere Gate and Sarai Kale Khan, and at railway stations across the capital. However, a decision on mandatory testing of all passengers is vet to be taken.

"We have been asked to set up testing centres at all bus terminals and railway stations at the earliest. These will offer RT-PCR and rapid antigen tests. However, there has been no clarity on whether all passengers entering the city will have to undergo mandatory testing for Covid-19," said a senior district official.

On Tuesday, the city reported 2.312 Covid cases and 18 deaths in the last 24 hours. The total number of infections due to the virus rose to 1,77,060 while the death roll reached 4,462. The capital conducted around 24,198 tests in the last 24 hours - 7.198 RT-PCR and 17,000 rapid antigen.

The rise in RT-PCR tests comes a day after the Delhi High Court pointed to rising cases in the capital, and asked the government to devise a new strategy to accommodate asymptomatic patients as well.

The National Centre for Disease Control (NCDC), which conducted the first sero survey in Delhi, in its final report stated that asymptomatic patients can pose a huge challenge in effective dis-

Advertisement No. Admn.02/2020

### CORONAVIRUS IN THE CAPITAL

	TOTAL CASES 1,77,060	HOSPITAL BEDS VENTILATORS	Total 14,136 1,216	Vacant 9,861 730
	Daily cases	Recoveries	Deaths	Tests
Aug 31	1,358	1,507	18	14,389
Sep 1	2,312	1,050	18	24,198
Total	15,870*	1,56,728	4,462	16,07,683
			*Tota	ıl active cases

The increase in RT-PCR tests comes after the HC pointed to rising cases in capital.

Gaiendra Yadav

ease containment.

"The IgG positivity in patients experiencing influenza-like illness (ILI) symptoms vs patients not experiencing any ILI symptoms conforms with scientific evidence that a significant proportion of the population remains asymptomatic which may serve as silent spreader of the disease and pose a greater challenge for the health system to stop virus transmission," the NCDC suggested in the concluding serological survey report.

Director General of Health Services, Delhi government, Dr Nutan Mundeja said the govern-

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (हमीरपुर हि.प्र.) 177005

**NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR** 

HAMIRPUR (H.P.)-177005

[An Institute of National Importance under Ministry of Education হাঞ্জা ( मंत्रालय )

National Institute of Technology, Hamirpur invites on-line applications from, fron

the eligible candidates for the engagement as Temporary Faculty (purely on con tract basis with consolidated salary) in various Departments in the Institute. Fo

details of vacancy, qualifications, terms and conditions, emoluments, instruction

and on-line application form, please visit Institute website http://www.nith.ac.in Last date for apply on-line is 06-09-2020(upto 05.00 P.M)

RECRUITMENT FOR TEMPORARY FACULTY

ment will re-strategise its testing plan not only through RAT but also through RT-PCR.

According to sources, the guidelines will also make it clear if a prescription from a private doctor will be mandatory/optional to undergo the RT-PCR test. At present, no private lab is authorised to test any patient without a prescription. States like Punjab and Maharashtra have already tweaked testing guidelines for Covid patients.

Meanwhile, the third sero survey kicked off in Delhi on Tuesday, with 17,000 people to be tested in the first week of the month. Delhi Health Minister Satvendar Jain said the exercise will be carried out at a micro level: "This time, we will be doing it ward-wise, so all 272 municipal wards will be covered, plus two Assembly areas. Sampling will be done for a week. After that, results should come in 7-10 days.'

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गांव

जोहलाका, ब्लॉक सोहना का लाल डोरे के अंदर का ड्राफ्ट नक्शा, मालिकों के नाम सहित,

सर्वे ऑफ इंडिया से ग्राम पंचायत जोहलाक

को प्राप्त हो गया है जोकि सार्वजनिक स्थान ग्राम सचिवालय, जोहलाका का आमजन अवलोकन हेतु उपलब्ध है। जिस पर ग्राग

पंचायत / ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा निर्घारित

सार्वजनिक स्थान ग्राम जोहलाका में दिनांक

26.08.2020 से दिनांक 26.09.2020 तक प्रात

10 बजे ये सांय 4.00 बजे तक हरियाणा राज

अधिनियम 1994 की धारा-26 के तहत

ग्रामवासियों से गांव के लाल डोरे के अंदर की

प्रापर्टी से संबंधित दावे व आपत्तियां प्राप्त र्क

दावे व आपित्तियों के निपटाने हेतु ग्राम सभ

PUBLIC NOTICE

FORM NO. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the

Companies (Incorporation)

Rules, 2014]

Advertisement to be published

in the newspaper for change of

from one state to another

BEFORE THE CENTRAL

GOVERNMENT (REGIONAL

DIRECTOR), MINISTRY OF

CORPORATE AFFAIRS,

NORTHERN REGION, NEW DELH

IN THE MATTER OF SECTION

13(4) OF THE COMPANIES ACT

2013 AND RULE 30(5) (a) OF THE

COMPANIES (INCORPORATION)

**OMNIPRESENT RETAIL INDIA** 

PRIVATE LIMITED, Having its

Registered Office At: A-27/A

1st Floor, Hauz Khas, New Delhi

Notice is hereby given to the Genera Public that the Company proposes

to make an application to the Centra

Government, power delegated to

Regional Director under section

13(4) of the Companies Act 2013

seeking confirmation of alteration of

the Memorandum of Association of

the Company in terms of the Special

Resolution passed at the Annual

General Meeting held on 31st July

2020 to enable the Company to

change its Registered Office from

"National Capital Territory (NCT) of Delhi to State of West Bengal"

Any person whose interest is

likely to be affected by the

proposed change of the registered

office of the Company may deliver either on the MCA 21 portal

(www.mca.gov.in) by filing investor

compliant form or cause to be

delivered or send by registered post

of his/ her objections supported by

an affidavit stating the nature of

his / her interest and grounds of

opposition to the Regional Director

Northern Region at the address

Ministry of Corporate Affairs

Regional Director. Northern

Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit

Deendayal Antyodaya Bhawan

CGO Complex, New Delhi - 110003,

within fourteen days from the date

of publication of this notice with a

copy to the applicant Company at its registered office at the address

OMNIPRESENT RETAIL INDIA

PRIVATE LIMITED, A-27/A, 1st Floor

Hauz Khas, New Delhi-110016, India

For OMNIPRESENT RETAIL

INDIA PRIVATE LIMITED

**MRIGANK SARAF** 

DIN: 08117637

Whole Time Directo

THE MATTER OF

**RULES 2014** 

110016, India

गएगी। तप्पश्चात दिनांक 27.09.2020 को इन

ग्राम पंचायत जोहलाका, ब्लॉक सोहना

(जिला गुरूग्राम)

### Gurgaon sees over 190 cases — highest in two months

**SAKSHIDAYAL** 

GURGAON, SEPTEMBER 1

GURGAON RECORDED its highest number of daily Covid cases in over two months, with 196 people testing positive on Tuesday. Daily cases also crossed the 150-mark for the first time in one-and-a-half months.

As per health bulletins shared by the district health department, the district last saw more than 190 cases in a day on June 16, when 205 cases were recorded, and over 150 daily cases on July 19, when 154 cases were recorded.

The development comes amid repeated warnings to residents from officials to follow norms and refrain from going out unless absolutely necessary. On August 21, the district recorded over 100 fresh cases for the first time in 22 days. Since then, in the last one week between August 25 and 31, over 100 people have tested positive in a day.

"The main reason for cases increasing is that people have now stopped following Covid protocol. Where earlier people would wash their hands as soon as they returned from outside, maintain social distancing, and use masks, fewer people are following these norms now," said



Daily cases crossed the 150-mark for the first time in over a month

CMO Dr Virender Yadav.

"A surge is being seen in cases across the country and, in such a situation, people need to maintain more precautions. The health department can test, isolate, treat, or quarantine people, but people themselves will have to realise the seriousness of the situation and follow guidelines," he said.

With cases seeing a surge once again, the CMO Tuesday directed private hospitals to "consider" increasing the number of Covid beds from 25% to 30%. At a meeting with representatives of private hospitals, he said, "At the moment, there are 1.000 beds available for Covid patients in the district. If required, these can be further increased."

Gurgaon has seen 12,113 cases so far, of which 10,932 people have recovered and 133 have died from the infection.



### NITI Aayog

**Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO)** Output-Outcome Monitoring Framework (OOMF).

Details relating to eligibility, preparation of proposal, evaluation criteria, terms and conditions and standard forms can be accessed in the RFP document on the DMEO website (https://dmeo.gov.in/tenders) and Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in/eprocure/app).

Interested agencies may submit their proposals along with requisite supporting

Agra Division

**Invites Expression of Interest (EOI)** 

for Developing Goods Sheds

A business opportunity to script your and India's success story

EOI is invited from interested Individuals/Customers/Start-ups/

Agencies/companies and other entities for undertaking infrastructural

development of Goods shed of AGRA Division in Public Private

Partnership under BOT (Built, Operate and Transfer) Scheme.

**Development work will** 

include improvement in

Loading/Unloading platform surfaces.

The approach road from Goods shed to

Basic amenities and other improvement

as per National Green Tribunal norms.

Circulating area.

the main road.

• Lighting arrangements.

Labour resting facilities.

Merchant meeting facilities.

davp 54101/11/0011/2021

Subject: RFP for Selection of Consultants for the Establishment of a Program Management Unit (PMU) to support DMEO in the Institutionalization of Output-Outcome Monitoring Framework (OOMF) DMEO, NITI Aayog (New Delhi) invites proposals from reputed firms to establish a Program Management Unit (PMU) for the Institutionalization of

documents within 30 days from the date of advertisement.

Salient features of

**Business proposal** 

Scope of work to be identified by the

Revenue sharing with Railways.

be held after 15th September.

green goods shed.

PROPOSED GOODS SHED FOR DEVELOPMENT UNDER BOT

Yamuna Bridge • Kuberpur • Mathura • Kosikalan • Ramgarh • Hodal

Interested parties may kindly send their EOI/Suggestions along with the details of the proposal

for each goods shed separately upto 15.00 hours on or before 15th September, 2020 to the

Office of Sr. DCM, DRM Office Agra, North Central Railway

E-mail id: sdcm@agc.railnet.gov.in Contact No. 9760537860

**NORTH CENTRAL RAILWAY** 

Investment will be aimed at creation of

Free to submit any innovative business

model without altering the Freight structure.

Pre-bid meeting with interested parties will

# ORCHARD" AVENUE



Dated 31.08.2020

LICENCE NO.: 51 OF 2019 DATED 06.03.2019 | HRERA NO.: 51 OF 2019 DATED 11.09.2019

### **RE-DRAW OF FLATS**

General public is hereby informed that re-draw of 278 flats against which 315 applications have been received under Haryana Affordable Housing Policy 2013 of Orchard Avenue 2, Sector-93, District Gurugram, being developed by M/s Signature Builders Private Limited shall be conduct on 04/09/2020 at 04:30 PM onwards at The Pllazio Hotel, Plot No. 292-296, Sector - 29, HUDA City

With the help of live streaming/telecast of draw proceeding on youtube live. Due to ongoing situation of Covid-19 pandemic, restriction were imposed by Ministry of Home Affairs, over public gathering in order to prevent spreading of corona virus disease.

As ner MHA/ DTCP Harvana Guidelines re-draw shall be conduct with maximum strength of 50 persons including draw committee and staff at site, remaining applicant shall narticinate in re-draw online after login into below provided link on YouTube live.

YouTube Link - https://www.youtube.com/user/SignatureGlobal

Note: If any applicant wants to check his/her name in the list he/she may contact to STP Office, Gurugram as well as the office of colonizer before re-draw of lots.

SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275 Regd. Off.: 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Corp. Off.: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 Email: customercare@signatureglobal.in, Ph.: 0124-4908200, 9311144624

### PREMIER REGISTRATION SERVICE

Patent & Trademark Attorneys Off. Add.: 8/1 Rajinder Nagar, New Delhi-110060. INDIA

Phones: +91-11-25861168 AND +91-11-25761755 Fax: +91-11-25725467 AND +91-11-45041733 Email: patent@vsnl.com AND patent72@gmail.com Web Sites: http://patentindia.org AND http://indiapatent.net

### **CAUTION NOTICE**

OUR CLIENT M/s. Sing Beverages Private Limited (a Private Limited Company), having address: Block-A, Plot No. 60/4, G.T. Karnal Road Industrial Area, Delhi-110033 are the registered proprietors of the following trade marks in respect of alcoholic and non-alcoholic beverages including Beer in India:





That the above said trade mark word perse and labels are registered before th Registrar of Trade Marks, New Delhi under Trade Mark Numbers: 3530705, 3751895 3846194, 4144795 and 4144796. The above said trade marks have been usec openly and continuously since the year 2018 by our client in India.

That our client has learned that some people/companies have been misusing thei above said trade marks; have been posing as their agents and trying to procur financial securities on behalf of our client. PUBLIC NOTICE is hereby given that any unauthorized use, stocking of good

bearing the same or deceptively similar trade mark BAD MONKEY with/without the artistic works by any other person, firm and or by dealers and also the use of the work "BAD MONKEY" as a corporate name for same or similar goods would constitute infringement/passing off of our client's rights and this would render the offende punishable under the civil and/or criminal law whereby holding him/them liable fo all costs and consequences which may also result in seizure of goods.

It is further notified that our client M/s. Sinq Beverages Private Limited has NOT AUTHORIZED any agent to procure deals and/or financial securities in lieu o procurement of goods under above said trade mark. Our client M/s. Sing Beverage: Private Limited will not be responsible for any financial securities paid to any thir party without the knowledge/consent of our client or its authorized agents.

Dated this 28<sup>th</sup> day of August, 2020 PREMIER REGISTRATION SERVICE Patent and trade mark Attorneys)

3/1. Rajinder Nagar, New Delhi-110060 s: 25861168, 25761755; Fax: 25725467, 25815350 Email Address: docketing@premierip.in, info@pren

**NEHA CHUGH** Advocate E. No.D-266/2009

### 🚺 INDIA GLYCOLS LIMITED

fr. A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhan Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 725515/269535 E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com CIN: L24111UR1983PLC009097

Notice of 36th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Glycols Limited ("the Company") will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice convening th The AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI Listing Regulations" ead with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13 April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular" he Deemed venue for AGM shall be the Registered office i.e. A-1, Industrial Area, Bazpu Road, Kashipur-244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Members Participating hrough the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorus under Section 103 of the Act

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 which, inter-alia, comprises Audited financia statements (including the consolidated financial statements) of the Company for the inancial year ended 31st March, 2020, Auditor's and Board's report thereon has been ser only by email to all those Members who have registered their email addresses with the npany or their respective Depository Participant ("DP") which was completed o Monday, 31st August, 2020. The Notice of the 36th AGM and Annual Report is also available on the Company's website <a href="www.indiaglycols.com">www.indiaglycols.com</a>, website of Nationa Securities Depository Limited ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of National Securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of the securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of the securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and the website of the securities ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> and <a href="www.evoting.nsdl. Stock Exchanges, BSE Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange India Limited at www.nseindia.com. Members, who do not receive the Notice of 36th AGN and Annual Report, may download it from the Company's website or write to the Compan Secretary at compliance.officer@indiaglycols.com.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with applicable rule: ereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 18th September, 2020 to Thursday, the 24th September, 2020 (both days inclusive for the purpose of AGM.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and applicable rules thereunde and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM in respect of businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The AGM notice, inter-alia nentions the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM and instructions for participating in the AGM along with the instructions with regard to logic redentials for members holding shares in physical form or in demat form, who have no registered their e-mail addresses either with the Company/DP. The voting rights, by remote e-voting/e-voting, of the Members shall be in proportion to their share in the paid up equit share capital of the Company as on the cut-off date i.e Thursday, 17th September, 2020 All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 36th AGM mat be transacted through voting by electronic means; (b) the remote e-voting shall commence on Sunday, the 20th September, 2020 at 9:00 A.M..; (c) the remote e-voting shall end or Wednesday, the 23<sup>rd</sup> September, 2020 at 5:00 P.M.; (d) the cut-off date for reckoning the rights of Members for remote e-voting/e-voting is Thursday, the 17<sup>th</sup> September, 2020 ) the remote e-voting shall not be allowed after 5:00 P.M. on Wednesday, the 23rd September, 2020; (f) E-voting shall also be made available at the 36th AGM g) the Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the 36" AGM; (g) person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as or cut-off date i.e **Thursday**, 17<sup>th</sup> **September**, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM; (h) Persons who have acquired shares and become members of the Company after the notice has been sent electronically and holding shares as on the cut-off date i.e. **Thursday**, the 17<sup>th</sup> **September**, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at <a href="evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> o <a href="mailto:admin@mcsregistrars.com">admin@mcsregistrars.com</a>; and (i) in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the 'downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatri, Manage NSDL Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai- 400013, at pallavid@nsdl.co.in, Tel No. +91 22 2499 4545 or a Toll Free No. 1800-222-990 who will also address the grievances connected with the electronic voting/attending AGM through VC/OAVM. Members may also e-mail to the Company Secretary at compliance.officer@indiaglycols.com or write at the Head office a Plot No. 2-B, Sector 126, Noida 201304, Uttar Pradesh. Shareholders whose e-mail ID's are not registered with the Company/Depository

Participant, may get the same registered by following the below instructions, in order t obtain Annual Report for the Financial Year 2019-20.

Physical Holding | Members holding shares in physical mode are requested to register/

update their email addresses by writing to MCS Share Transfer Agent Limited ("the RTA") at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi 110020 or email at admin@mcsregistrars.com along with the copy of the signed request letter mentioning the folio number and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of share certificate (front & back).

Demat Holding

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses by following the process mentioned above under-Physical Holding and send 16 digit DPID & Client ID in place of Folio No. along with scanned copy of self-attested Client Master copy or consolidated Demat Account Statement.

However, for registration of e-mail addresses permanently, members holding shares in physical form may follow the same procedure and those holding shares in de

may contact their respective DP's. The Company has appointed Shri Ashish Saxena (C.P. No.7096) of Ashish Saxena & Co., Company Secretaries, Ghaziabad as the scrutinizer to scrutinize the Re e-voting and e-voting process in fair and transparent manner.

Members holding shares in physical mode are requested to inform about change of address dividend mandate, if any, to the Company's RTA i.e. M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 and the members holding hares in demat mode should inform their Depository Participants about such changes.

For India Glycols Limited

Ankur Jair

Place: Noida, U.P. Dated: 1st September, 2020

### New Delhi

Company Secretary

Place : Delhi

Date: 2nd September, 2020

entioned below:

# लाखों रूपए की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

देहरादून। फर्जी मृत्यु प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर जमीन मालिक का फर्जी लड्का बनकर जमीन अपने नाम करवाकर लाखों रुपए की उगी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गत 31 अगस्त 2020 को आनंद सिंह पवार पुत्र चंदन सिंह पवार निवासी बद्रीश कॉलोनी, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून द्वारा थाना रायपुर में तहरीर दी कि एक व्यक्ति रवि शर्मा द्वारा राहुल पुत्र दिलीप निवासी मेरठ को मुझे व मेरे मित्र शोभित बोड़ाई से मिलाया और बताया कि नत्थुवाला रायपुर में राहुल की 600 गज जमीन है जो उसके पिता दलीप सिंह की मृत्यु के बाद उसके जमीन का सौदा में तय हुआ। हमने 51,00,000/-9,80,000/-राहुल को दे दिए। जमीन की



पुलिस की गिरफ्त में ठगी का आरोपी

क्षेत्राधिकारी नेहरू कॉलोनी के

नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी में

चैकिंग बैरियर पर मुखबिर की

साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों

द्वारा पूछताछ में बताया कि

बरामदा स्मैक को खरीदने के लिए

पुलिस टीम के द्वारा दो

तस्करों को जोगीवाला

दिलीप सिंह जिंदा है और उसका पुत्र राहुल नहीं है। यह सब रिव शर्मा और राहुल, जिसका असली नाम रोहन त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली है, ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर फर्जी प्रमाण रजिस्ट्री कराने से पहले हमें ज्ञात हुआ कि पत्र बना कर हमारे रुपए हड़प लिए हैं।

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ सूचना पर 201.60 ग्राम स्मैक के

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यावाही शुरू कर दी। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया व पुलिस

डिजायर कार यूके 07 डब्लू

4407 से 31अगस्त की सुबह

फतेहगंज बरेली गए। वहां पर माम्

नाम के व्यक्ति से स्मैक लेकर

देहरादून आ रहे थे। पुलिस से

मिली जानकारी के अनुसार पकड़े

गए दोनों युवक काफी समय से

पुलिस से छुपकर देहरादुन में

स्मैक तस्करी का कार्य कर रहे

थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को

न्यायालय के समक्ष पेश किया

गया। गिरफ्तार आरोपियों में

अभिषेक कुमार भाटिया (29)

सूचना

अनुक्रमांक 18092878 की मार्कशीट

सह प्रमाण पत्र (श्री पूर्णागिरी इन्टर

कालेज, भजनपुर-चम्पावत) वास्तव

में खो गया है। आकाश जाटव पुत्र

श्री राजेन्द्र जाटव वार्ड नं. 5, मीना

बाजार, बनबसा ( चम्पावत )

मेरा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2018

दस लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त रिव शर्मा द्वारा दलीप सिंह निवासी नथुवाला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया एवं अभियुक्त रोहन त्यागी का नाम राहुल एवं पिता का नाम दिलीप सिंह दर्शा कर फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर दिलीप सिंह की जमीन राहुल के नाम की गई एवं वादी आनंद सिंह पवार व उसके मित्र शोभित बोडाई के साथ 600 गज जमीन का अनुबंध 5100000/– में किया एवं 980000 दोनों अभियुक्तों द्वारा वादी से प्राप्त कर लिए। मामले में गठित पुलिस टीम ने मंगलवार 1 सितंबर को अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त रोहन त्यागी उर्फ राहुल शर्मा पुत्र सतीश त्यागी निवासी रोहिणी सेक्टर दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य आरोपी रवि अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण व शर्मा नाम पता अज्ञात की तलाश जारी है।

निवासी 186 नेशविला रोड, थाना

कोतवाली नगर, देहरादून व शिवम

अरोड़ा (25) पुत्र विनोद अरोड़ा

निवासी 322 चुक्खुवाला मौहल्ला,

थाना कोतवाली नगर, देहरादून

बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार

दोनों आरोपियों से बरामद स्मैक

की अनुमानित कीमत करीब दस

वेबसाइट न खुलन

से दिवकर्त

लिए शुरू किए गए कामन सर्विस

सेंटरों की ई-डिस्टिक वेबसाइट नहीं

खुलने से आम जनता के साथ ही

सेंटरों के कर्मचारी भी परेशान हैं। 21

अगस्त के बाद से ई-डिस्ट्रिक की

वेबसाइट नहीं चल रही है। इसके

चलते लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में

उत्तराखण्ड पावर

कारपोरेशन लि.

निविदा सूचना

के अन्तर्गत निम्नकार्य हेतु मोहरबन्

निविदा दो भागों में दिनांक

29.09.2020 को दोपहर दो बजे तक

विद्युत सुरक्षा विभाग' में एवं विभाग

में पंजीकृत व आयकर जी.एस.टी.

विभाग, ई.पी.एफ. विभाग में

पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों से

आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन

सायं चार बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता

अथवा मनोनीत अधिकारी द्वारा

उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख

खोली जायेंगी। निविदा खोलने की

तिथि को यदि कोई सार्वजनिक

अवकाश घोषित हो जाए तो, निविदा

अगले कार्य दिवस में यथावत खोली

जाएगी। निविदा के प्रथम मुहरबन्द

भाग में सामने दी गई अग्रिम धरोहर

धनराशि 'मनी राष्ट्रीय बचत पत्र एवं

डाक घर सावधि खाते' व 'किसी भी

एफ.डी.आर./टी.डी.आर.' के रूप में

अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम बन्धक

होगी तथा विद्युत सुरक्षा विभाग में

ठेकेदारी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

आयकर, जी.एस.टी., ई.पी.एफ.

विभाग में पंजीकृत का प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा

का द्वितीय भाग नहीं खोला जायेगा।

निविदा के दूसरे मुहरबन्द भाग में

निविदा दरें व सम्बन्धित प्रपत्र भर कर

देने होंगे। निविदा प्रपत्र का मूल्य,

निविदा के सम्मुख राशि का बैक

ड्राफ्ट/बैकर्स चैक अधोहस्ताक्षरकर्ता

के पदनाम में जमा करके उपरोक्त

समय व तिथि के एक दिन पूर्व किसी

भी कार्य दिवस में इस कार्योलय से

खरीदे जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का

मूल्य किसी भी दशा में वापस देय

नहीं होगा। निविदा की अन्य नियम

शर्तें व विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी एक

अथवा समस्त निविदा को स्वीकार

करने न करने अथवा निरस्त करने का

बिना कोई कारण बताये पूर्ण अधिकार

होगा, एवं निविदा प्रपत्र क्रय करते

समय जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा

की स्थिति में निविदा प्रपत्र बिक्री नहीं

1.निविदा संख्या ई.डी.डी.

आर. )-05/2020-21 कार्य का

नाम : विद्युत वितरण खण्ड रामनगर

के अन्तर्गत उपखण्ड (ग्रामीण)

कालाढुंगी में जमा मद में प्रधानमन्त्री

आवास योजना के तहत ग्राम

भवानीपुर गडियाल, पत्तापानी विकास

खण्ड कोटाबाग के विद्युतीकरण के

कार्य हेतु विद्युत लाईनों/उपकेन्द्रों का

निर्माण का कार्य मय विकेन्द्रिकृत

सामग्री की आपूर्ति सहित। धरोहर

धनराशि रुपया 10200/-, कार्य

पूर्ण करने का समय : दो माह,

निविदा प्रपत्र मूल्य रुपया 280/-

'राष्ट्र हित में बिजली बचायें

www.upcl.org पर जाएं

X 7 from www.upcl.org

Pay electricity bill Online 24

जी.एस.टी. सहित (अप्रतिदेय)।

किये जाएगे।

पढी जा सकती है।

स्वीकार्य

बैंक

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस खण

परेशानी हो रही है।

गरुड़। जनता की सुविधा के

लाख रुपए बताई गई है।

देहरादन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डा. प्रणव मुखर्जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डा. प्रणव मुखर्जी को श्रद्धांजलि हेत् प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, राजीव भवन, देहरादून में एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेसजनों ने स्व. प्रणव मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, सूर्यकान्त धस्माना, राजेन्द्र नवीन जोशी, पूर्व मंत्री सिंह, महामंत्री पी.के. अग्रवाल, गोदावरी थापली, पूर्व विधायक राजकुमार, चौधरी, गरिमा दसौनी, डा. प्रतिमा देवेन्द्र सती, सीताराम विजेन्द्र पाल, नौटियाल, डा. मोहित नेगी आदि उपस्थित थे।

# कुपोषण से लड़ने में मदद करने की घोषणा

कार्यक्रम, बनेगा स्वस्थ इंडिया के आंगनवाड़ी में अत्याधुनिक सुविधाएं तहत रेकिट बेंकाईजर ने फैलते स्थापित की जाएंगी, ताकि जन कोविड-19 के संकट के बीच फ्रांट स्वास्थ्य प्रणाली समुदाय को बेहतर लाईन कर्मचारियों एवं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सहयोग करने के टी-20 में छह टीमों को साझेदारी की है। इस विपत्ति से प्रायोजित करेगी बीकेटी सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हुए भारतीय बहराष्ट्रीय और ऑफ-हाइवे टायर स्थित हैं, जहां पर जनस्वास्थ्य. मार्केट में वैश्विक कंपनी बालकृष्ण सरकारी सुविधाओं की पहुंच कम है। प्लान

इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीकेटी टायर्स) इंडिया द्वारा डेटॉल बीएसआई भारत ने घोषणा की है कि वह आगामी में प्रभावित समुदायों के बीच काम टी-20 लीग के सीजन 2020 में 6 मुंबई इंडियंस, चेन्नई को टीमों-सुपरिकंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, संक्रमण प्रिवेंशन किट्स के वितरण किंग्स इलेवन पंजाब, में मदद करेगा। इन किट्स में नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स प्रोटेक्शन ईक्विपमेंट्स को (पीपीई), एन95 मास्क, ट्रिपल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते अल्कोहल-बेस्ड के आधार पर केएफसी बिग बैश हैंडरब्स और इन्फ्रारेड थर्मामीटर हैं। लीग (बीबीएल) को समर्थन देते हुए बीकेटी पहले से ही इस खेल सामुदायिक

# आटी में चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

उत्तर उजाला मंवाददाता दन्यां। सरकार आपके द्वार

उप जिलाधिकारी भनोर्ल धौलादेवी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आटी में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय आटी में चौपाल लगाते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। उप जिलाधिकारी ने लोगों की विभिन्न प्रकार की पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, श्रम विभाग, राजस्व विभाग सहित अनेक समस्याओं का मौके पर ही अपने स्तर से निराकरण करवाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवती पंत और ग्राम प्रधान कमल कुमार सिंह ने आधार कार्ड



जानकारी दी और ब्लाक स्तर पर शिविर लगाने की मांग की। उन्होंने छूटे हुए लोगों के राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था कराने की मांग भी रखी। उप जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया कि चौपाल में पंजीकृत समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी से विभागों के कर्मचारी उपस्थित हुए। बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील भी लोगों से की। कार्यक्रम में का आभार प्रकट किया।

प्राथमिक विद्यालय आटी में कार्यरत शिक्षक नवीन चंद्र भट्ट को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिला पूर्व प्रधान डीके जोशी, महेश पंत सहित राजस्व, शिक्षा, ग्राम्य विकास, वन समाज कल्याण सहित विभिन्न ग्राम प्रधान कमल कुमार सिंह ने सभी

# पंजाब में मेरे परिवार के

अपनी बुआ के परिवार हमले की सिंह को टैंग करते हुए लिखा कि आया था। पठानकोट में उनकी बुआ किसने किया। क पारवार पर हमला लूट का मामला 🛛 इन अपरााधया माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि को और अपराध पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो करने के लिये हुआ वह भयावह है। मेरे फूफा की बख्शा नहीं जाना चाहिए।

आज तक हमें पता नहीं कि उस रात था। मैं पंजाब पुलिस से इस मामले पर गौर करने का आग्रह करता हूं। हम कम से कम यह जानने के हकदार तो हैं कि उनके साथ यह

### साथ भयावह हुआ : रैना नयी दिल्ली। पूर्व भारतीय दिनों बाद मौत हो गयी थी। रैना ने क्रिकेटर सुरेश रैना ने पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर

जांच की मांग करते हुए मंगलवार को खुलासा किया कि उनके फूफा के बाद अब उनकी बुआ के लड़के की भी मौत हो गयी। यह 33 वर्षीय खिलाड़ी व्यक्तिगत कारणों से इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर होने के बाद पिछले हफ्ते स्वदेश लौट हत्या कर दी गयी, मेरी बुआ और दोनों भाइयों (बुआ के लड़कों) को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दुर्भाग्य से मेरा भाई भी कई दिन तक जिंदगी और मौत से जुझने के बाद चल बसा। मेरी बुआ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। रैना के परिजनों पर पंजाब के पठानकोट जिले के थरियाल गांव में 19 और 20 सितंबर की रात को हमला किया गया था। उनके फुफा की कुछ

लेयर्ड मास्क,

इसके अलावा एक

लिए प्लान इंडिया

मानवीय मदद और

कर रहे स्वास्थ्य संगठनों

मोटराईज्ड हॉस्पिटल बेड्स

कार्यक्रम के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी भनोली ने ग्राम आटी में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही

सुधारीकरण की कोई व्यवस्था न होने से लोगों को हो रही दिक्कतों की उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

निविदा आमन्त्रण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न कार्यों हेतु ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें पृथक-पृथक दो भागों में निम्नलिखित दिनांक को 14.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 15.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा के प्रथम भाग में धरोहर धनराशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./टी.डी. आर. के रुप में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल के पक्ष में बन्धक होगी। साथ हीं जी.एस.टी. पंजीकरण, वाहन से सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति के रूप में प्राप्त की जायेगी। द्वितीय भाग में केवल निविदा दर प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र खुलने के एक दिन पूर्व तक रु. 560.00 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक डाफ्ट जमा कर कार्यालय से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा पत्र डाक से मंगवाने पर रु. 50.00 अतिरिक्त देय होगा। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को निम्न निविदायें बिना किसी

नोट: जी.एस.टी. सम्बन्धित

निविदा संख्या : वि.वि.ख., नै./16/2020-21, कार्य का **नाम** : नैनीताल उपखण्ड अन्तर्गत प्रणाली सुधार मद से सम्बन्धित कार्य, धरोहर धनराशिः रु. 36000.00 (छत्तीस हजार) नोट : पूर्व में प्रकाशित निविदा संख्या 11/20-21 की बिक्री तथा खुलने की तिथि 25.09.2020 निर्धारित की जाती है।

'विद्युत बिलों के 24×7 ऑनलाईन भुगतान हेतु

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, नैनीताल

कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

विद्युत बिलों के 24×7 ऑनलाईन भुगतान हेतु

संख्या: 4953 दिनांक: 01.09.2020

पंजीकरण से संलग्न करना अनिवार्य है। निम्न 25.09.2020 है।

www.upcl.org परजाएं अधिशासी अभियन्ता

अभिलेख भी निविदा लेते समय प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ निविदा खुलने की तिथि

# 💝 🕏 🕲 🕮 🕬 सारीपाल 🕮 🕮 😂 😂

: दिन मिश्रित फलदायी है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

: दिन शुभफलदायी है। स्वस्थ रहेंगे। प्रसन्नता का अनुभव होगा परिवार वालों के साथ समय बितेगा।

मिथुन : दिन बहुत अच्छा बीतेगा। घर में शांति का वातावरण रहेगा। सुखमय प्रसंग बनेंगे। खर्च निरर्थक नहीं होगा।

ः स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्य अपूर्ण रह सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। सिंह

ः दिन शुभ फलदायी है। सकारात्मक माहौल रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहेंगे। नौकरी की चिंता हो सकती है।

: कार्य बिना सोचे-समझे न करें। भाई-बहनों से लाभ होगा। प्रतिस्पर्धियों का सामना कर पाएंगे।

ः मन दुविधाओं में रहेगा। नया कार्य प्रारंभ ना करें। आर्थिक लाभ होगा। परिजनों के साथ वाद-विवाद होगा। वृश्चिक : आनंद की प्राप्ति होगी। समय उल्लास में बीतेगा। मित्रों से

उपहार मिलेगा। प्रियजनों से मुलाकात होगी। : परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वाणी पर संयम रखें। धन व्यय हो सकता है।

: मित्रों से मुलाकात लाभदायी होगी। परिवार के साथ आनंद में

दिन व्यतीत होगा। खरीदारी के लिए दिन शुभ है। ः शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशंसा होगी सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। अटके कार्य पूर्ण होंगे।

: संतान के भविष्य की चिंता होगी। वाद-विवाद को टालें। मन में नकारात्मक विचार ना आने दें।

### संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी

जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मुद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित। मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी

फोन:हल्द्वानी 252129, 252975 नैनीताल: 236154, पंजी.सं. आर.एन.32942/77 website: www.uttarujala.com

E-mail: uttarujala7@cmail.com uttarujala@rediffmail.com

### कार्यालय नगर पालिका परिषद सितारगंज ( उधमसिंह नगर )

पत्रांक ज्ञाप/गृ.दा.खा./2019-2020

दिनांक 03.02.2020 गृहकर नामान्तरण सूचना

पालिका सीमान्तर्गत वार्ड नें. 2 में स्थित भवन को गृहकर अभिलेख में शपथ पत्र के आधार पर श्रीमती सैय्यदा शहनाज अली पत्नी श्री सैयद सज्जाद अली का नाम खारिज क भवन के आंशिक/पूर्णभाग में श्री सैयद सज्जाद अली पुत्र श्री स्व सैययद इरशाद अली का नाम दर्ज

अत: उपरोक्त सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचन प्रकाशन की तिथि से एक माह वे अन्दर अपनी आपत्ति मय साक्ष्य वे कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथ गृहकर अभिलेख में भवन के आंशिक/पूर्णभाग में श्री सैयद सज्जाद अली पुत्र श्री स्व. सैयद अरशाद अली नाम दर्ज किये जाने हेतु

कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अधिकारी

🚺 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

वंजीकृत कार्यालयः ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उद्यम सिंह नगर, उत्तरार

सीआईएन: L24111UR1983PLC009097

36वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वार सूचित किया जाता है कि इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 36 वीं वार्षिक

आम बैठक ("ए जी एम") बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को प्रात: 11:00 बजे विडियो

कॉन्फ्रेसिंग (''वी सी'')/अन्य ऑिंडियो विडियो माध्यमों (''ओ ए वी एम'') सुविधा के माध्यम से

सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम. 2013

प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("'सेबी सूचीकरण विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल

2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपन्नो") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय

बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79

दिनांक 12 मर्ड. 2020 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति

के बिना ए जी एम वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ए जी एम का अनुमानित स्थल

पंजीकृत कार्यालय अर्थात् ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह

नगर, उत्तराखण्ड होगा। वी सी/ओ ए वी एम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यगणो की गणना

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, 36वीं ए जी एम की सूचना और वित्तीय वर्ष

2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय

वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरण सहित), लेखापरीक्षकों एव

बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके

ई-मेल पते कम्पनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के पास पंजीकत हैं और इसे

भेजने का कार्य **सोमवार, 31 अगस्त, 2020** को पूरा कर लिया गया है। 36वीं एजीएम की सूचना और

वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी

लिमिटेड (''एन एस डी एल'') की वेबसाइट www.evoling.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की

वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्हें 36वीं ए जी एम की सूचना और

कम्पनी अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित उसके अधीन लागू नियमों और सेबी सूचीकरण विनियम

के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्धारा यह भी सूचना दी जाती है कि ए जी एम के प्रयोजन हेतु कम्पनी

के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित उसके अधीन लाग नियमों और सेबी

सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को ए जी एम की सूचना ग

निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में ए जी एम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग और ए जी एम के दौरान

ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है और इस प्रयोजन के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

वोटिंग को सुगम बनाने हेतु एन एस डी एल को नियुक्त किया है। ए जी एम की सूचना में अन्य बातों के

अतिरिक्त रिमोट ई-बोटिंग और ए जी एम के दौरान ई-बोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धति तथा भौतिक प्रारूप

या डिमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के पार

पंजीकत नहीं कराया है, के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल्स के संबंध में निर्देशों के साथ एजीएम में शामिल होने

के लिए निर्देश दिये गये हैं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार, रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के द्वारा, कट-ऑफ

तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) 36वीं ए जी एम की सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पादन

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है; (ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 20 सितम्बर

2020 को प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होगी; (ग) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को सायं 5.00

बजे समाप्त होगी: (घ) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के अधिकार की गणना हेत कट-ऑफ तिथि

बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 है; (ङ) बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को साय 5.00 बजे के बाद

रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी; (च) 36वीं ए जी एम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी;

(छ) सदस्यगण जिन्होंने ए जी एम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट दे दिया है, वे

भी वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से आयोजित होने वाली एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें 36वीं ए

जी एम के दौरान दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी: (ज) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात

बुहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत की गई लामार्थ

स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या ए जी एम में ई-वोटिंग के पात्र होंगे; (झ) ऐसा

व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा

कट—ऑफ तिथि अर्थात् **बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020** को शेयर घारण करता है, वह <u>evoting@nsdl.co.in</u>

या admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है; और (ञ)

किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड' सैक्शन पर सदस्यों द्वारा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या

सुश्री पत्नवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड टॉकर, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति

बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई-400 013 से ई-मेल: pallavid@nsdl.co.in पर, टेलीफोन नं. 91 22

2499 4545 पर या टोल फ्री नं. 1800.222.990 पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या वी

सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम मे भाग लेने से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण करेंगी। सदस्यगण

ई-मेल आईडी compliance.officer@indiaglycols.com मुख्य कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सैक्टर-126,

शेयरधारक जिन्होंने कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है वह

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए नीचे दिये गये

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदस्य का

नाम, फोलियो नम्बर एवं पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, आधार कार्ड की

स्य-सत्यापित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की प्रति वर्णित करते हुए

हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ लिखित अनुरोध एमसीएस शेयर

टांसफर एजेंट लिमिटेड ("आरटीए"), एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल

एरिया, फेज-1, नई दिली-110020 या उनके ई-मेल: admin@mcsregistrars.com

डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे

भौतिक धारिता के अधीन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करके तथा अपना

फोलियो नं. के स्थान पर 16 अंकों का डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी के साथ

क्लाइंट मास्टर कॉपी या समेकित डिमेट खाता विवरण उपलब्ध कराते हुए अपना

के माध्यम से भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

तथापि, ई-मेल पता स्थायी रूप से पंजीकरण कराने के लिए भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले

सदस्यगण उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करें और डिमैट, प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपने

कम्पनी ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए आशीष

सक्सेना एंड कं., कम्पनी सचिव, गाजियाबाद के श्री आशीष सक्सेना (सी.पी. नं. 7096) को जांचकत

नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश पर कम्पनी सचीव को भी लिख सकते हैं।

ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

निर्देशों का पालन करें:

भौतिक धारिता

डिमैट धारिता

संबंधित डीपी से सम्पर्क करें।

के रूप में नियुक्त किया है।

स्थान: नोएडा, उ. प्र.

दिनांक: 1 सितम्बर, 2020

अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उददेश्य से की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकर

को ई-मेल compliance.officer@indiaglycols.com पर लिख सकते हैं।

सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

"अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं

### के द्वारा जनपद मे अवैध नशे व तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस दोनों अभिषेक भाटिया की स्विफ्ट

साथ गिरफ्तार किया है।

स्मैक की सप्लाई करने वाले दो

तस्करों को पुलिस ने दस लाख

की करीब 201.60 ग्राम स्मैक के

लिस अधीक्षक जनपद देहरादुन

सूचना मेरे सैन्य अभिलेखों में गलती से मेरे पुत्र का नाम उमेद सिंह दर्ज हो गया है। उनका सही व वास्तविक नाम उम्मेद सिंह(Ummed Sindh) मेरे अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाय। नं. जेसी.193007, सेनि. सूबेदार किशन सिंह, ग्राम-पोस्ट हरसिला, तहसील कपकोट,

सूचना मेरा आर्मी दस्तावेज पी.एल.आई जिसका नं. APS-883583L है वास्तव में खो गया है, जिसे अवैध माना जाये। शपथ पत्र संख्या 🂵 UK83888330740258S **जारी** दिनांक 1.9.2020, नं. 13626273×, हवलदार नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-खेतलसण्डाखाम-खटीमा उधमसिंह नगर

मेरे सैन्य अभिलेखो में मेरी पुत्री का नाम भूलवश सोनू ऐरी (SONU AIRY) अंकित हो गया है। उनका सही व वास्तविक नाम सोनू ऐरी (SONT AIREE) मेरे अभिलेखों में अंकित क दिया जाये तथा उन्हें इसी नाम से जान जाये। शपथ पत्र संख्या 💵 UK81951245608234S **जारी दिनांक** 22.08.2020, ਜੰ. 13626273x, हवलदार नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-खेतलसण्डाखाम-खटीमा

मेरे सैन्य अभिलेखो में मेरी पर्ल का नाम भूलवश रेखा (REKHA) अंकित हो गया है। उनका सही व वास्तविक नाम रेखा ऐरी (REKHA AIREE) मेरे अभिलेखों में अंकित कर दिया जाये तथा उन्हें इसी नाम से जाना जाये। शपथ पत्र संख्या 💵 UK81809787745022S, **जारी दिनांक** 21.08.2020, ਜੰ. 13626273x, हवलदार नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-खेतलसण्डाखाम-खटीमा उधमसिंह नगर

### U C F उत्तराखण्ड राज्य सहकारा संघ लि.

यूसीएफ सदन, दीप नगर रोड, विष्णु विहार, अजबपुरकलां, देहरादून दूरभाष 0135-2665020, 2665294, फैक्स- 0135-2665020

अल्पकालीन निविदा सूचना प्रारुप

खरीफ खरीद वर्ष 2020-21 में कुर्मोयुं संभाग में यूसीएफ द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों में हैण्डलिंग तथा धान/वारदाना परिवहन कार्यों हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। इस सम्बन्ध में अच्छी शाखा वाले ठेकेदार, जिन्हें संघ में उक्त कार्य का अनुभव हो, को वरीयता दी जायेगी। निविदाएँ दिनांक 14.09.2020 को अपरान्ह 12 बजे तक यूसीएफ जिला कार्यालय, प्लाजा काम्पलैक्स, प्रथम तल, बरेली रोड, हल्द्वानी में प्राप्त की जायेंगी, तथा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा फार्म दिनांक 12.09.2020 तक रु. 560.00 (टैक्स सहित) नगद भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में यूसीएफ जिला कार्यालय, यूसीएफ प्लाजा, बरेली रोड, हल्द्वानी से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित होगा।

प्रबन्ध निदेशक

### काशीपुर होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, वाजपुर रोड, काशीपुर-244713 जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, दूरभाष: 05947-269500, फैक्स: 05947-275315 वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित

तददारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 के लाग प्रावधानों तथा उसके अधीन गठिव नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए सर्कलर") साधारण सर्कलर . 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 क्रमशः के अनुसार एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के वगैर वीडियो कॉफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों ("ओएवीएम") के जरिए कंपनी के सदस्यों की 23वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएन") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वाहन 11.30 बजे (भामास) आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कलरो के अनुसार 23वीं एजीएम की सचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के जरिए भेजा जाएगा जिनके ईमेल का पता कंपनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। 23वीं एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्

अगर आपने कंपनी/डीपी के साथ अपने ईमेल पता का पंजीयन नहीं कराया है, तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए ईमेल के पंजीयन हेत् कृपया नीचे उल्लेखित निर्देशावलिये

and and and and				
भौतिक प्रारूप में धारण रहने पर	सदस्यों से admin@mcsregistrars.com अथवा preeti.choudhary@indiaglycolcom पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि के साथ आवश्यक विवरण यानि फोलिन नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, पै कार्ड (स्वयं सत्यापित), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित) का प्रावधान कर अपने ईमेल व पता पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।			

com के पास फोलियों नं. के स्थान पर 16 अंकों वाली डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी वे प्रारूप मे साथ क्लाइंट मॉस्टर की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि अथवा समेकित डिमैट खाता विवरण क प्रतिलिपि, पैन (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि), आधार (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि) का प्रावधाः कर अपने ईमेल का पता पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जरिए 23वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। वीसी ओएवीएम के जरिए 23वीं एजीएम में शामिल होने की निर्देशावलियां तथा 23वीं एजीएम में सीडीएसएर की रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए भाग लेने का प्रारूप 23वीं एजीएम की सुचना र उपलब्ध कराया जाएगा। सचना में भौतिक प्रारूप अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाल शेयरघारकों. जिन्होंने न तो कंपनी के साथ अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल का पता पंजीयन नहीं करवाया है, के लिए लॉग इन अनुशंसापत्र के संबंध में निर्देशाविलयां र्भ सम्मिलित रहेगी। अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम का पता लगाने के उद्देश्य के लिए वीसी,

किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर सदस्य आरटीए के पास admin@mcsregistrars.com कंपनी के पास preeti.choudhary@indiaglycols.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

कृते काशीपुर होल्डिंग्स लिमिटेड विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर (नैनीताल) प्रीति चौधरी तंख्या: 2541 दिनांक: 01.09.2020

### CIN: U67120UR1996PLC020938

होने वाली 23वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में सूचना

रहेगी।

मौतिक प्रारूप में धारण रहने पर	सदस्यों से admin@mcsregistrars.com अथवा preeti.choudhary@indiaglycol com पर हरताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि के साथ आवश्यक विवरण यानि कोलि नं., शेयरघारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, <sup>६</sup> कार्ड (स्वयं सत्यापित), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित) का प्रावधान कर अपने ईमेल पता पंजीयन/अखतन कराने का अनुरोध किया जाता है।
Đrậc	TETTI A admin@massaciatrore aom WET areati abaudhan @indiagh.sal

ओएवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी करने वाले सदस्यों की गिनती की जाएगी।

दिनांक : 01.09.2020

स्थान : नोएडा

अंकुर जैन

भौतिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते/लाभांश अधिदेश में परिवर्तन यदि कोई हो, की जानकारी कम्पनी के आरटीए अर्थात मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड.

एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिली-110020 को दें और डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण ऐसे परिवर्तन की जानकारी अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को दें। कृते इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

हस्ता./-